

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या-794/xxxi(15)G-74(सा0)/2016-20
देहरादून: दिनांक 23 दिसम्बर, 2020
अधिसूचना

श्री राज्यपाल मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-243 के अन्तर्गत निम्नांकित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2021 ई0 (शक संवत् 1942-43) वर्ष के लिये समस्त उत्तराखण्ड राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं-

सन् 2021 अर्थात् शक संवत् 1942-43 की सार्वजनिक अवकाशों की अनुसूची

अनुलग्नक-1

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2021	06 माघ, 1942	मंगलवार
2	महाशिव रात्रि	11 मार्च, 2021	20 फाल्गुन, 1942	बृहस्पतिवार
3	होलिका दहन	28 मार्च, 2021	07 चैत्र, 1943	रविवार
4	होली	29 मार्च, 2021	08 चैत्र, 1943	सोमवार
5	गुड फ्राईडे	02 अप्रैल, 2021	12 चैत्र, 1943	शुक्रवार
6	डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रैल, 2021	24 चैत्र, 1943	बुधवार
7	राम नवमी	21 अप्रैल, 2021	01 वैसाख, 1943	बुधवार
8	महावीर जयन्ती	25 अप्रैल, 2021	05 वैसाख, 1943	रविवार
9	*ईद-उल-फितर	14 मई, 2021	24 वैसाख, 1943	शुक्रवार
10	बुद्ध पूर्णिमा	26 मई, 2021	05 ज्येष्ठ, 1943	बुधवार
11	हरेला	16 जुलाई, 2021	25 अषाढ़, 1943	शुक्रवार
12	*ईद-उल-जुहा (बकरीद)	21 जुलाई, 2021	30 अषाढ़, 1943	बुधवार
13	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2021	24 श्रावण, 1943	रविवार
14	*मोहर्रम	19 अगस्त, 2021	28 श्रावण, 1943	बृहस्पतिवार
15	रक्षा बन्धन	22 अगस्त, 2021	31 श्रावण, 1943	रविवार
16	जन्माष्टमी	30 अगस्त, 2021	08 भाद्रपद, 1943	सोमवार
17	महात्मा गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर, 2021	10 आश्विन, 1943	शनिवार
18	दशहरा (विजयदशमी)	15 अक्टूबर, 2021	23 आश्विन, 1943	शुक्रवार
19	* ईद ए मिलाद / मिलाद-उल-नबी बारावफात	19 अक्टूबर, 2021	27 आश्विन, 1943	मंगलवार
20	महर्षि वाल्मीकि जयन्ती	20 अक्टूबर, 2021	28 आश्विन, 1943	बुधवार
21	दीपावली	04 नवम्बर, 2021	13 कार्तिक, 1943	बृहस्पतिवार
22	दीपावली(गोबर्द्धन पूजा)	05 नवम्बर, 2021	14 कार्तिक, 1943	शुक्रवार
23	गुरु नानक जयन्ती	19 नवम्बर, 2021	28 कार्तिक, 1943	शुक्रवार
24	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर, 2021	04 पौष, 1943	शनिवार

2- उत्तराखण्ड सचिवालय/विधान सभा और जिन कार्यालयों में पाँच दिवसीय सप्ताह लागू है, के फलस्वरूप अनुलग्नक-2 में घोषित सार्वजनिक अवकाश सचिवालय/विधान सभा में लागू नहीं होंगे अपितु इन अवकाशों को अब निर्बन्धित अवकाशों की सूची में सम्मिलित किया गया, मानते हुए उन्हें निर्बन्धित अवकाशों के रूप में ऐसे अवकाशों को लेने की अनुमत्य सीमा तक नियमानुसार उपयोग किया जा सकेगा।

3- श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट अवकाशों को भी सन् 2021 (शक संवत् 1942-43) वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं।

अनुलग्नक -2

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	गुरु गोविन्द सिंह जयन्ती	20 जनवरी, 2021	30 पौष, 1942	बुधवार
2	चेटीचन्द	13 अप्रैल, 2021	23 चैत्र, 1943	मंगलवार
3	विश्वकर्मा पूजा	17 सितम्बर, 2021	26 भाद्रपद, 1943	शुक्रवार
4	गुरु तेगबहादुर शहीद दिवस	24 नवम्बर, 2021	03 अग्रहायण, 1943	बुधवार

4- मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा-247 की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार जिलाधिकारियों को इस पैरा में दिए प्रतिबन्धों के साथ स्थानीय छुट्टियाँ जिनकी संख्या 03(तीन) से अधिक न हो, घोषित करने का प्राधिकार है। इसके अतिरिक्त मैनुअल ऑफ गवर्नमेण्ट आर्ड्स के पैरा 247 के अन्तर्गत जिलाधिकारियों द्वारा घोषित किये जाने वाले स्थानीय अवकाशों में, उत्तराखण्ड विधानसभा/सचिवालय तथा जिन कार्यालयों में पाँच दिवसीय सप्ताह लागू है, खुले रहेंगे।

- *यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।
- अनुलग्नक-1 के द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश बैंक/कोषागार/उपकोषागार में लागू नहीं होंगे।
- बैंक/कोषागार/उपकोषागार में निगोशियेबल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अन्तर्गत घोषित अवकाश लागू होंगे, जो कि अनुलग्नक-4 में सूचीबद्ध किये गये हैं।

5- प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित अनुसूची में दी गयी निर्बन्धित छुट्टियों में से किन्ही दो छुट्टियों को, जो वह लेना चाहें, मनाने की अनुमति दी जायेगी।

निर्बन्धित अवकाशों की सूची

अनुलग्नक-3

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रिगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक सम्वत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	नव वर्ष दिवस	01 जनवरी, 2021	11 पौष, 1942	शुक्रवार
2	मकर संक्रान्ति	14 जनवरी, 2021	24 पौष, 1942	बृहस्पतिवार
3	बसंत पंचमी	16 फरवरी, 2021	27 माघ, 1942	मंगलवार
4	गुरु रविदास जन्मदिवस	27 फरवरी, 2021	08 फाल्गुन, 1942	शनिवार
5	*शब-ए-बारात	29 मार्च, 2021	08 चैत्र, 1943	सोमवार
6	ईस्टर मन-डे	05 अप्रैल, 2021	15 चैत्र, 1943	सोमवार
7	वैशाखी	13 अप्रैल, 2021	23 चैत्र, 1943	मंगलवार
8	वीर केशरीचन्द्र शहीद दिवस	03 मई, 2021	13 वैशाख, 1943	सोमवार
9	*जमात-उल-विदा	07 मई, 2021	17 वैशाख, 1943	शुक्रवार
10	अनन्त चतुर्दशी	19 सितम्बर, 2021	28 भाद्रपद, 1943	रविवार
11	*चैहल्लुम	28 सितम्बर, 2021	06 आश्विन, 1943	मंगलवार
12	महाराजा अग्रसेन जयंती	07 अक्टूबर, 2021	15 आश्विन, 1943	बृहस्पतिवार
13	दशहरा(महा अष्टमी) (महानवमी)	13 अक्टूबर, 2021	21 आश्विन, 1943	बुधवार
14	दशहरा (महानवमी)	14 अक्टूबर, 2021	22 आश्विन, 1943	बृहस्पतिवार
15	दीपावली(नरक चतुर्दशी)	03 नवम्बर, 2021	12 कार्तिक, 1943	बुधवार
16	भैयादूज	06 नवम्बर, 2021	15 कार्तिक, 1943	शनिवार
17	छठ पूजा	10 नवम्बर, 2021	19 कार्तिक, 1943	बुधवार
18	किसमस (पूर्व संध्या)	24 दिसम्बर, 2021	03 पौष, 1943	शुक्रवार

- *यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881 के अर्न्तगत घोषित अवकाश

6- निगोशिएबुल इन्स्ट्रुमेन्ट एक्ट, 1881(एक्ट संख्या-26,1881) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या-20/25-56-पव-1, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, श्री राज्यपाल निम्नलिखित अनुसूची में निर्दिष्ट छुट्टियों को सन् 2021 ई0 (शक संवत् 1942-43) के वर्ष में समस्त उत्तराखण्ड प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करते हैं:-

अनुलग्नक-4

क्र. सं.	त्यौहारों का नाम	ग्रेगोरियन कलेण्डर के अनुसार तिथि	राष्ट्रीय शक संवत् के अनुसार तिथि	सप्ताह का दिन
1	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी, 2021	06 माघ, 1942	मंगलवार
2	महाशिव रात्रि	11 मार्च, 2021	20 फाल्गुन,1942	बृहस्पतिवार
3	होलिका दहन	28 मार्च, 2021	07 चैत्र,1943	रविवार
4	होली	29 मार्च, 2021	08 चैत्र,1943	सोमवार
5	वाणिज्यक बैंको की वार्षिक लेखा बन्दी	01 अप्रैल, 2021	11 चैत्र, 1943	बृहस्पतिवार
6	गुड फ्राईडे	02 अप्रैल, 2021	12 चैत्र, 1943	शुक्रवार
7	डॉ० भीमराव अम्बेडकर जयन्ती	14 अप्रैल, 2021	24 चैत्र,1943	बुधवार
8	राम नवमी	21 अप्रैल, 2021	01 वैसाख,1943	बुधवार
9	*ईद-उल-फितर	14 मई, 2021	24 वैसाख,1943	शुक्रवार
10	बुद्ध पूर्णिमा	26 मई, 2021	05 ज्येष्ठ,1943	बुधवार
11	हरेला	16 जुलाई, 2021	25 अषाढ़, 1943	शुक्रवार
12	*ईद-उल-जुहा (बकरीद)	21 जुलाई, 2021	30 अषाढ़, 1943	बुधवार
13	स्वतन्त्रता दिवस	15 अगस्त, 2021	24 श्रावण,1943	रविवार
14	रक्षा बन्धन	22 अगस्त, 2021	31 श्रावण, 1943	रविवार
15	जन्माष्टमी	30 अगस्त, 2021	08 भाद्रपद, 1943	सोमवार
16	महात्मा गांधी जयन्ती	02 अक्टूबर,2021	10 आश्विन,1943	शनिवार
17	दशहरा (विजयदशमी)	15 अक्टूबर, 2021	23 आश्विन,1943	शुक्रवार
18	* ईद ए मिलाद /मिलाद-उल-नबी बारावफात	19 अक्टूबर, 2021	27 आश्विन,1943	मंगलवार
19	दीपावली	04 नवम्बर, 2021	13 कार्तिक, 1943	बृहस्पतिवार
20	दीपावली(गोबर्द्धन पूजा)	05 नवम्बर, 2021	14 कार्तिक, 1943	शुक्रवार
21	गुरु नानक जयन्ती	19 नवम्बर, 2021	28 कार्तिक, 1943	शुक्रवार
22	क्रिसमस दिवस	25 दिसम्बर,2021	04 पौष,1943	शनिवार

*यह त्यौहार स्थानीय चन्द्र दर्शन के अनुसार मनाये जायेंगे। यदि चन्द्र दर्शन के आधार पर किसी त्यौहार की तिथि में परिवर्तन होता है तो वह स्वतः ही चन्द्र दर्शन के आधार पर परिवर्तित हो जायेगा। उक्त अवकाश में पृथक से कोई औपचारिक आदेश आवश्यकता नहीं होगी। उसे स्वतः ही आदेश माना जायेगा।

उपरोक्त अवकाश आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के क्रम में जारी किये गये हैं, जो कि बैंक/कोषागारों/उप कोषागारों में लागू होंगे।

(डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या-794/xxxi(15)G-74(सा०)/2016-20 तददिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड़ नई दिल्ली-11001
2. निबन्धक, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल का सूचनार्थ एवं ऐसी कार्यवाही हेतु प्रेषित जिसे मा० उच्च न्यायालय आवश्यक समझे।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. अपर मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
9. सचिव, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. समस्त जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
13. सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
14. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राज्य के समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार हेतु।
15. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तराखण्ड, रुड़की को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं 300 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. समस्त राज्य सरकारों तथा संघ शासित के मुख्य सचिव एवं रीजनल डायरेक्टर इण्डियन मीटरियोलॉजिकल डिपार्टमेन्ट, अलीपुर, कोलकाता।
17. उत्तराखण्ड सरकार की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
19. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(कवीन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव।